

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 298] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1969/भाद्र 8, 1891

No. 298] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1969/BHADRA 8, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 29th August 1969

S.O. 3478.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that this Ministry's Order bearing S.O. 1958, dated the 13th May, 1969 shall remain in force upto the 30th September, 1969.

The Central Government further directs that the following districts shall be omitted from the list of districts referred to in para 1 of the said Order:

1. Broach:
2. Sabarkantha:
3. Amreli:
4. Baroda:

[No. F. 24-4/68-L.D.III.]

SARAN SINGH, Jt. Secy.

(1205)

